

पैसा लेकर घर से उड़ेगा कूड़ा, सड़क पर फेंका तो जुर्माना

पटना | शकेशधारी

घरों से कूड़ा उठाने की योजना का अधिक दिनों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नगर निगम ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। पैसा लेकर घरों से कूड़ा उठाया जाएगा। सड़क पर कूड़ा-कचरा फेंकने वालों से जुर्माना लिया जाएगा। 29 जून को सशक्त स्थायी समिति की बैठक में यह प्रस्ताव लाया जाएगा।

शहर के उपभोक्ताओं को चार श्रेणी में बांटा गया है। गरीबी रेखा के नीचे, फुटपाथी दुकानों और धार्मिक स्थलों से कूड़ा उठाने के बदले यूजर चार्ज नहीं

लिया जाएगा। बड़े होटलों और बड़े अस्पतालों से कूड़ा उठाने के बदले हर माह दस हजार रुपये यूजर चार्ज लिया जाएगा। शहर की सूरत बदलने के लिए स्थायी समिति इस योजना को लागू करने का मन बना चुकी है। स्थायी समिति और निगम बोर्ड से स्वीकृति के बाद घरों से कूड़ा उठाने के लिए पोपीपो मोड पर स्लोबल टेंडर किया जाएगा। ठोस कचरा प्रबंधन योजना को शर्तों के मुताबिक यूजर चार्ज लगाए बिना इसे लागू नहीं किया जा सकता है।

29

जून को तय होगा यूजर चार्ज और जुर्माने का रेट, सशक्त स्थायी समिति में लाया जाएगा प्रस्ताव

हिन्दुस्तान विशेष



श्रेणी 'क'



आवासीय घर (प्रति परिवार, फ्लैट, आवास) : 60
मलिन और गरीबी रेखा के नीचे की श्रेणी का आवास : 00

यूजर चार्ज वसूलेगा नगर निगम

श्रेणी 'ख'



देश के कई शहरों में ठोस कचरा प्रबंधन शुरू हो चुका है। पटना में भी इसे शीघ्र शुरू किया जाएगा। सेवा देने के बदले नगर निगम यूजर चार्ज लगा रहा है। 29 जून को सशक्त स्थायी समिति की बैठक में प्रस्ताव को स्वीकृति दी जाएगी। अफजल इमाम, मेयर

उपभोक्ता की श्रेणी

यूजर चार्ज, प्रस्तावित मासिक शुल्क रूप में

पांच सितारा होटल और इसके समतुल्य : 10000
व्याधसायिक कार्यालय, सरकारी कार्यालय, बैंक, बीमा कार्यालय, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान : 1000

श्रेणी 'ग'



फुटपाथी दुकान : 00
ढाबा, मोटाई दुकान, कॉफी हाउस : 300
रेस्तरां, गेस्ट हाउस, धर्मशाळा, होस्टल : 1000

अस्पताल 50 बेड से अधिक : 10000

श्रेणी 'घ'



धार्मिक स्थल : 00
लघु और कुटीर उद्योग, वर्कशॉप, 10 कि.ग्रा. तक केवल गैर खतरनाक कूड़ा : 1000
गोदाम, कोल्ड स्टोरेज केवल गैर खतरनाक कूड़ा : 2000

शादी हॉल, उत्सव हॉल, प्रदर्शनी, मेला : 5000
नोट : छूटे हुए का नगर निगम के ऑकलन के मुताबिक जुर्माना आवासीय मकान 100 रुपए प्रति घटना भवन निर्माण सामग्री, मतवा, सड़क किनारे रखने पर : 1000 रुपए प्रति घटना और हटाने का खर्च जुर्माना नहीं जमा करने पर 15 फीसदी ब्याज